



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252] नई दिल्ली, बुधवार, जन 20, 1979/ज्येष्ठ 30, 1901
No. 252] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 1979/JYAISTHA 30, 1901
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

घाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहाकारिता मंत्रालय
(घाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 1979

का. आ. 350 (अ).—केंद्रीय सरकार का, अपन कर्ज में के वस्तुवर्जी और अन्य साक्ष्य
से यह समाधान हो गया है कि मैसर्स मून मून टी कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड, 5, कलाह्व रो,
कलकत्ता-1 के स्वामित्वाधीन पांटोंग टी एस्टेट, डाकघर बेलगाची, कुर्सियांग, दार्जीलिंग
जिला चाय एकक (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त एकक कहा गया है) तीन मास से
अन्यून अवधि से बन्द पड़ा है और ऐसी बंदी संबंधित चाय एकक के प्रतिकूल है तथा
चाय एकक की और उक्त एकक के संयंत्र और मशीनों की स्वामी कम्पनी की वित्तीय
स्थिति ऐसी है कि उक्त एकक को पुनः चालू करना लोक हित में आवश्यक है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16 ड
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स एन्ड्रयू थुले एन्ड

कम्पनी लिमिटेड, यूल हाउस, 8, क्लाइव रो, कलकत्ता-700001 (जिसे इसमें इसका पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) को उक्त समस्त एकक के प्रबन्ध को, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा ;
 - (2) प्राधिकृत व्यक्ति राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ,
 - (3) केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, पहले भी समाप्त कर सकती ।
2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[फा. सं. बी-12012(3)/78-प्लान्ट (ए)]

टी. बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION
(Department of Commerce)

ORDER

New, Delhi, the 20th June, 1979

S.O. 350(E).—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary and other evidence in its possession that the tea unit Potong Tea Estate, P.O. Belgachi, Kurseong, Darjeeling District, (hereinafter referred to as the said unit) owned by M/s. Moon Moon Tea Co. (P) Ltd., 5, Clive Row, Calcutta-1 has been closed for a period of not less than three months and such closure is prejudicial to the concerned tea unit and that the financial condition of the company owning the tea unit and the plant and machinery of the said unit are such that it is possible to restart the said unit and such restarting is necessary in the interest of the general public :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby authorises M/s. Andrew Yule & Co. Ltd., Yule House, 8, Clive Row, Calcutta-700001 (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said unit subject to the following terms and conditions namely :—

- (i) the authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette ;
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. B-12012(3)/78-Plant(A)]
T. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.